



पता- 407/409, योजना क्र .- 1 मंगल पांडेय नगर, मेरठ
बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश २५०००४

अनुबंध के आधार पर बिज़नेस कोरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) सुपरवाइजर हेतु आवेदन

बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, सहारनपुर, बागपत व मुजफ्फरनगर में बैंक मित्र सुपरवाइजर पद के लिए ऑफ़लाइन आवेदन आमंत्रित करता है-

रिक्त पद :

| जिला | रिक्त पद |
|------------|----------|
| सहारनपुर | 2 |
| बागपत | 1 |
| मुजफ्फरनगर | 1 |

पारिश्रमिक:

फिक्स्ड- रू० 15000/- प्रति माह

अन्य वैरिएबल घटक- अन्य मासिक वैरिएबल भुगतान उत्तम कार्य निष्पादन के मापदंडों पर देय होगा।

अनुबंध अवधि : 12 माह । आगे प्रत्येक 6 माह हेतु विस्तार कार्य निष्पादन के पुनर्वावलोकन के आधार पर किया जा सकता है।

पात्रता:

1. सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों हेतु :

- किसी भी पीएसयू बैंक के सेवा निवृत्त अधिकारी, मुख्य प्रबंधक के पद तक,
- बैंक ऑफ बड़ौदा के सेवानिवृत्त क्लर्क, जिसने जे.ए.आई.आई.बी. (JAIIB) किया हो ,

2. अन्य (सेवा निवृत्त बैंक कर्मचारियों के अतिरिक्त)

- कंप्यूटर ज्ञान (एम.एस. ऑफिस, ईमेल, इंटरनेट आदि) में दक्षता रखने वाला कोई भी स्नातक। हालांकि एम.एस.सी.(आई.टी.)/ बी.ई.(आई.टी.)/ एम.सी.ए./ एम.बी.ए. योग्यता रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।

आयु :

नियुक्ति के समय पूर्व-बैंकरों की आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि अन्य उम्मीदवारों के मामले में यह 21-45 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए।

नोट: आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार उसी जिले के निवासी हो जिस जिले में आवेदन किया हो और स्थानीय भाषा में कुशल होने चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए, हमारे बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाएँ।

ऑफ़लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 24-07-2022

दिनांक : 01-07-2022

स्थान : मेरठ

सहायक महा प्रबन्धक
(क्षेत्रीय प्रबन्धक)
बैंक ऑफ बड़ौदा मेरठ